

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

माध्यमिक- अर्थशास्त्र (214)

पाठ 19 : भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

कार्य पत्र - 19

1. "भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटिश शासन के दौरान हस्तशिल्प के उत्पादन में क्रमिक गिरावट का अनुभव किया"। इस बयान के पीछे का कारण बताएं।
2. ब्रिटिश शासन के दौरान अकाल की लगातार घटना और भोजन की कमी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में बाधा उत्पन्न की। कैसे?
3. जमींदारी व्यवस्था कृषि भूमि से लागत उत्पन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार के हाथों में एक साधन थी। आय उत्पन्न करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए कथन को विस्तृत करें।
4. ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ने भारतीय किसानों को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में नकदी फसल का उत्पादन करने के लिए मजबूर किया। क्यों?
5. हमारे संसाधनों के दोहन के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भारत में औद्योगीकरण की प्रक्रिया की दिशा में पहल की। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश में औद्योगिक विकास का संक्षिप्त विवरण दें।
6. स्वतंत्रता के समय आर्थिक नियोजन ही हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के उपयोग का एकमात्र तरीका था। कथन के प्रकाश में स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।
7. "सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कई सरकारी पहलों के बावजूद, आर्थिक विकास के मामले में कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है"। उपरोक्त कथन के आलोक में, भारत में ब्रिटिश शासन के बाद की अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं की सूची बनाइए।
8. "स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम है।" इस समस्या को दूर करने के कुछ उपायों का सुझाव दें।
9. "उच्च जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा है क्योंकि यह गरीबी, बेरोजगारी और कम प्रति व्यक्ति आय जैसी अन्य आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है।" चर्चा करें।
10. सभी बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1951-2017) की एक सूची इसके उद्देश्य के साथ तैयार करें।